

प्रेस नोट दिनांक 10.09.2021

थाना बारादरी जनपद बरेली ।

थाना बारादरी #bareillypolice द्वारा आनलाईन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश 15 अदद विभिन्न बैंको के एटीएम कार्ड,13 अदद विभिन्न बैंकों की पासबुक, 06 अदद विभिन्न बैंको की चैकबुक,08 अदद मोबाईल फोन कीपैड तथा स्मार्टफोन व 01 अदद टेबलेट व 01 डायरी व 3,05,000 रूपये नकद व एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली महोदय द्वारा साइबर अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय एवं श्रीमान साद मियां खान सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया । जिसमें आज दिनांक 10.09.2021 को थाना बारादरी पुलिस द्वारा आनलाईन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 15 अदद विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड, 13 अदद विभिन्न बैंकों की पासबुक, 06 अदद विभिन्न बैंको की चैकबुक,08 अदद मोबाईल फोन कीपैड तथा स्मार्टफोन व 01 अदद टेबलेट व 01 डायरी व 3,05,000 रूपये नकद व गिरफ्तार एक नफर अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार किया गया । जिसमें गिरोह द्वारा अपनी जान पहचान के लोगो को लालच देकर झूठ बोलकर धोखाधड़ी करके फर्जी आधार कार्ड व अन्य I.D. बनाकर उनके बैंक खातों को खुलवाकर उनकी पास बुक व चैकबुक तथा ATM Card Number व नेट बैंकिंग पासवर्ड आदि हासिल कर लेते हैं व गैंग के एक सदस्य द्वारा जोकि आधार कार्डों में फोटो व नामपता बदलने का पूरा काम करता है जिन्हे बैंकों में खाते खोलने के लिए प्रयोग करवाते हैं तथा ATM व डेबिट Card को धोखाधड़ी करके प्राप्त कर लेते हैं । अपने एक नाइजीरियान साथी के साथ मिलकर मोबाईल नम्बर व WhatsApp से Call करके उसके द्वारा बताये गये खातों को भी हैक करके Money Transfer करते रहते हैं और बाद में ATM आदि से निकाल कर आपस में बराबर – बराबर बांट लेते हैं । इस सम्बंध में थाना बारादरी बरेली पर मु0अ0सं0 806/2021 धारा 411/420/468/471 आईपीसी व 66डी आईटी एक्ट बनाम अभियुक्त साजिद खान आदि 08 नफर अभियुक्त पंजीकृत किया गया है । अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ की जा रही है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. साजिद खान S/O शाकिर खान R/O ग्राम धनतिया थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली ।

वांछित/फरार अभियुक्तगण का नाम पता:-

1. जाबिर उर्फ कल्लू S/O छोटे खाँ R/O ग्राम धनतिया थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली
2. मोबीन खाँ S/O हाजी इसरायल R/O ग्राम धनतिया थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली
3. वारिस खान S/O नामालूम R/O ग्राम धनतिया थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली
4. राशिद S/O शाकिर S/O ग्राम धनतिया थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली
5. इरफान उर्फ इरशाद S/O मो0 यार खाँ R/O ग्राम दौली थाना शाही बरेली
6. मशतकीम S/O अफसर खाँ R/O ग्राम दौली थाना शाही बरेली
7. जैक मो0 8587061468 नि0 नाइजीरिया

बरामदगी:-

1. 15 अदद विभिन्न बैंको के एटीएम कार्ड,
2. 13 अदद विभिन्न बैंकों की पासबुक,
3. 06 अदद विभिन्न बैंको की चैकबुक,
4. 08 अदद मोबाईल फोन कीपैड/ स्मार्टफोन
5. 01 अदद टेबलेट
6. 01 डायरी
7. 3,05,000 रूपये नकद(तीन लाख पाँच हजार रूपये)

गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधि0/कर्म:-

1. उ0नि0 श्री अजय कुमार शुक्ला चौकी प्रभारी श्यामगंज थाना बारादरी बरेली
2. हे0का0 524 मेहर सिंह थाना बारादरी बरेली
3. का0 1711 कपिल कुमार थाना बारादरी बरेली

**प्रभारी निरीक्षक बारादरी
जनपद बरेली ।**